

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 675]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर 2022 — अग्रहायण 1, शक 1944

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-02/2022/29-2.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम में, जहां कहीं भी शब्द “फोरम” आये हों के स्थान पर, शब्द “आयोग” प्रतिस्थापित किया जाये।
- अनुसूची-तीन के कॉलम (2) में “स्टेनोग्राफर-3” के सामने कॉलम (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:—

“(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) मुद्रलेखन परिषद् से:—

- शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये— हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
- शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए— अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
- द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए— ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)

- (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।”
3. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) में “डाटा एन्ट्री ऑपरेटर” के सामने कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
- “(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,
अथवा
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
अथवा
10वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।
- “(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।”
4. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) में “स्टेनोग्राफिस्ट” के सामने कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
- (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,
अथवा
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।
- (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।”
5. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) में “सहायक ग्रेड-3” के सामने कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
- “(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,
अथवा
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।
- (3) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्रमांक एफ 5-02/2022/29-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-10-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 17th October 2022

NOTIFICATION

No.F. 5-02/2022/29-2.— In exercise of the powers conferred by Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission & District Consumer Disputes Redressal Forum (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule, for the word “Forum”, wherever they occur, the word “Commission” shall be substituted.
2. For entries of column (5) against “Class-III Stenographer Grade-III” in column (2) of Schedule-III, the following entries shall be substituted, namely:-
 - “(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,
 - OR
 - Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.
 - (2) From any recognized Board/ Institute /Stenography (Shorthand) Typing Council :-
 - (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).
 - (b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).
 - (c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).
 - (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).”
3. For entries of column (5) against “Data Entry Operator” in column (2) of Schedule-III, the following entries shall be substituted, namely:-

- “(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,
OR
Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University,
OR
Passed 10th Examination and 3 year diploma from any recognized institute.
- (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and certificate of Hindi and English typing 8000 (key) depression per hour (through computer and software) from recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).”
4. For entry of column (5) against “Steno Typist” in column (2) of Schedule-III, the following entry shall be substituted, namely:-
- “(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,
OR
Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.
- (2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).
- (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and certificate of Hindi or English typing 5000 (key) depression per hour (through computer and software) from recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).”
5. For entry of column (5) against “Assistant Grade-III” in column (2) of Schedule-III, the following entry shall be substituted, namely:-
- “(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,
OR
Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.
- (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator /Programming from any recognized institute.
- (3) Certificate of Hindi or English typing 5000 (key) depression per hour (through computer and software) from recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.